

पत्तियों से जान-पहचान

यदि हम चारों ओर नजर दौड़ाएं तो खूब हरा-भरा दिखाई पड़ता है। आखिर किसके बलबूते पर है यह हरियाली? पेड़-पौधों के दम पर ही तो दुनिया इतनी हरी-भरी है। और पेड़-पौधों में भी खासकर पत्तियों के दम पर।

हम रोज कितने पेड़-पौधे देखते हैं, और कई को पहचान भी लेते हैं। यदि पेड़ पर बिल्कुल पत्तियां न हों, तो पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है। यानी हर जाति के पेड़ की पत्तियों में कुछ विशेषता होती है। पर क्या अलग-अलग पेड़-पौधों की पत्तियों के बीच कुछ समानता भी होती है? पत्तियों से थोड़ी जान-पहचान करने के लिए



